



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 पौष 1933 (श0)  
(सं0 पटना 8) पटना, मंगलवार, 3 जनवरी 2012

---

वाणिज्य—कर विभाग

कार्यालय आदेश  
5 दिसम्बर 2011

सं0 7/एम0ई0 301-3/08-5084—माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लु0जे0सी0 सं0 8863/2009 प्रशांत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2009 को पारित न्यायनिर्णय एवं एम0जे0सी0 सं0/2011 प्रशांत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दायर के क्रम में जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिलास्तरीय अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिए गये अनुशांसा के आलोक में श्री प्रशांत कुमार, पिता स्व0 परमानन्द सिंह, भूतपूर्व पदचर, कार्यालय वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त, मधेपुरा अंचल, मधेपुरा स्थायी पता—ग्रा0 अलावक्सपुर, पो0 नादघाट, थाना गौरीचक, जिला पटना को चतुर्थ श्रेणी में “पदचर” के पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड 4440-7440 एवं ग्रेड—पे रू0 1650 में अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ औपबधित/अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में निम्नलिखित शर्तों के साथ पदस्थापित किया जाता है:—

1. इन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।
2. कार्यभार ग्रहण के दिन असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्राप्त कर वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में दाखिल करना होगा।
3. इन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र, जन्म तिथि तथा अन्य संबंधी प्रमाण—पत्र मूल रूप में उक्त कार्यालय में दाखिल करना होगा।
4. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति के बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा एक कारण पृच्छा की सूचना देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने समय यह घोषणा—पत्र भी देना होगा की वे विवाह के निमित्त न दहेज लेंगे न देंगे।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 11946, दिनांक 30 नवम्बर 1984 की कंडिका (3) के अनुसार श्री प्रशांत कुमार को यह घोषणा—पत्र भी देना होगा कि मृतक के परिवार के भरण—पोषण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। इसकी अवहेलना होने पर इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा इन्हें सेवा

से विमुक्त किया जा सकेगा। साथ ही इनकी पारिश्रमिक का एक निश्चित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को भुगतान करने का आदेश भी दिया जा सकेगा।

7. दिनांक 01 सितम्बर 2005 के प्रभाव से पेंशन की नयी स्कीम लागू है, जो इनपर भी लागू होगा।

8. योग्यता प्रमाण-पत्र का सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

9. श्री कुमार की औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि श्री कुमार के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। साथ ही इनके पिता का नाम विवादित रूप से नियुक्त कर्मियों की सूची में है। जिसकी जाँच सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गठित त्रि-सचिवीय समिति द्वारा की जा रही है। इनके पिता की अनियमित नियुक्ति के संबंध में प्रतिकूल निर्णय होने की स्थिति में इनके अनुकम्पा की नियुक्ति को समाप्त किया जा सकेगा। यदि इनके पिता की नियुक्ति सही पायी जाती है तो श्री प्रशांत कुमार को अनुकम्पा पर नियुक्ति के कार्य संतुष्टि के आधार पर नियमित किया जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन का दायित्व वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र०), पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ की होगी।

आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 8-571+30-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>